



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1966/माघ 12, 1887

No. 15] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1966/MAGHA 12, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February 1966

G.S.R. 205.—In exercise of the powers conferred by sub-rules (2) and (3) of rule 125 of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Price Control) Order, 1963, namely:—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Price Control) Amendment Order, 1966.
- (2) It shall come into force at once.
2. In the Kerosene (Price Control) Order, 1963, in the Schedule—
 - (1) under the sub-heading “(a) Superior”, in the second column, against item (ii), for the words “three rupees and fourteen paise” the words “three rupees and thirty-seven paise” shall be substituted;
 - (2) under the sub-heading “(b) Inferior”, in the second column, against item (ii), for the words “one rupee and seven paise” the words “one rupee and thirty paise” shall be substituted.

[No. F. 101(9)/64-PPD.]

S. K. GUHA, Jt. Secy.

